

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता सीताराम राजभर पुत्र रघुनंदन निवासी ट्यूबबेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

मोबाइल चोरी करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 559/20 धारा 379/411 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्त नाम पता शहजाद अहमद उर्फ जुबैर पुत्र अलीजान खां उर्फ इकराम निवासी वासिम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.10.2020 को वादीगण के घर से 05 अदद मोबाइल फोनों को चुराया गया था जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा दिनांक 05.10.2020 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुराये मोबाइल फोनों को बरामद करते हुए माननीय न्यायालय खाना किया गया।

जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 3000 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते

बरामद

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्त नाम पता – 1 – रत्नेश कुमार पुत्र रामाशीष 2 – सम्पत्ति गोस्वामी पुत्र मुरली गोस्वामी निवासीगण सियर 3 – मोनू सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह 4- गुलाम रसूल पुत्र हबीबुल्लाह निवासीगण उत्तरपट्टी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 2400 रुपये मालफड़, 600 जामा तलाशी व ताश के 52 पत्ते के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 285/20 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री सरोज कुमार, का0 रत्नेश सिंह, का0 प्रमोद प्रसाद, का0 अविनाश कुमार।

दहेज हत्या के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 595/20 धारा 498(अ)/304(ब)/201 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट के अन्तर्गत वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- विपिन कुमार पुत्र रामजी प्रसाद 2- रामजी प्रसाद पुत्र जोखई 3- निर्मला देवी पत्नी रामजी प्रसाद निवासीगण बडगो थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.10.2020 को वादी की पुत्री की दहेज के लोभ में हत्याकर दाह संस्कार कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आज दिनांक 06.10.2020 को उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 2547 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कस्बा बखिरा से इवेन्ट संख्या 9233 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस के जरिये प्रा० स्व० केन्द्र में हदावल भेजवाया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु० आरक्षी बालजीत यादव, आरक्षी रविन्द्र कुमार, हो० चा० देवेन्द्र नाथ राय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनो से 44000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 06-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनो से 44000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।